

14.11.2021

The Manager  
Listing Department  
**National Stock Exchange of India Limited**  
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)  
Mumbai – 400 051

Dear Sir/ Ma'am,

**Subject: Submission of newspaper publication of Financial Results for the quarter and half ended 30<sup>th</sup> September 2021**

**Symbol: JASH**

In compliance with the provisions of Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby submit copy of newspaper publication of the Financial Results for the quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September 2021 published on 14<sup>th</sup> November 2021 in newspapers viz. The Financial Express (in English) \_Mumbai Edition and Choutha Sansar (in Hindi).

You are kindly requested to take on record the above said information.

Thanking You,  
Yours Faithfully,  
**For Jash Engineering Limited**




**Tushar Kharnade**  
Company Secretary & Compliance Officer  
A30144  
Encl: A/a



**LARGEST RIGHTS ISSUE IN INDIA**

# Reliance makes final call for payment on rights issue

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, November 13



RELiance INDUSTRIES (RIL) has a second and final payment from those who were issued 42.26 crore company shares in a rights issue. And to assist shareholders, it has re-activated WhatsApp Chatbot 7977111111. In a regulatory filing, the company said a notice for payment of Second and Final Call on 42,26,26,894 partly paid-up equity shares of the face value of ₹10 each issued and allotted on rights basis on May 15, 2020, has been issued.

Reliance had made a rights issue of 42.26 crore equity shares at ₹1,257 each. The final call of 50% of the amount — ₹628.50 per share — has now become due. Reliance's rights issue at a total size of ₹53,125 crore was the largest ever rights issue in India. This was the

world's largest rights issue by a non-financial company in the past 10 years. The existing shareholders of the company were offered new shares of the company in a 1:1.5 ratio. November 10, 2021, was the record date to decide holders of the Reliance Partly Paid-up shares, who need to pay the Second and Final Call. On payment of the Second and Final Call amount, the partly paid-up shares will transition into fully paid-up shares of Reliance In-

dustries, which are traded under symbol RELIANCE on both NSE and BSE. To assist investors on the issue, Reliance has re-activated WhatsApp chatbot.

The AI-enabled easy-to-use chatbot is developed by Jio's group company Haptik and was previously used at the time of rights issue in May 2020, and the First call in May 2021. Reliance in the notice said the Second and Final Call can be paid through online ASBA, Physical ASBA, 3-in-1 account, R-WAP

facility (enabled for Net-banking, UPI, NEFT, RTGS payments), payments through cheque/DD. Payment of the Second and Final Call can be made from November 15-29, 2021.

Advt. no.: RLBCAU/02/2021 Dt.: 10.11.2021

**Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi-284003**

**SHORT-VACANCY NOTIFICATION**

Applications are invited for recruitment for the following positions.

S. No.	Position	Level	Discipline	No. of position
1.	Visiting/ Emeritus Professor	As per Uni. norms	One each in Agronomy, Genetics & Plant Breeding, Plant Pathology, Soil Science, Entomology, Fruit Science, Vegetable Science and Forestry	8
2.	Associate Professor	13A in 7CPC	Genetics & Plant Breeding	1UR
3.	Teaching-Cum-Research Associate	As per Uni. norms	Soil Science & Agricultural Chemistry, Entomology, Agricultural Extension, Fruit Science, Vegetable Science, Post-Harvest Technology, Forest Resource Management and Forest Biology & Tree Improvement	8

\*may increase or decrease  
For more details viz., essential qualification, pay scale, fee, application form and other instructions, please visit university website: [www.rlbcau.ac.in](http://www.rlbcau.ac.in)

**Registrar**

**KDDL LIMITED**  
(CIN : L33302HP1981PLC008123)  
Regd. Office: Plot No. 3, Sector - III, Parwanoo, Distt. Solan (H.P.) - 173220  
Tel.: +91 172 2548223 / 24 Fax : +91 172 2548302  
Website: [www.kddl.com](http://www.kddl.com) ; Email id: [investor.complaints@kddl.com](mailto:investor.complaints@kddl.com)

**STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER, 2021**

(Rs. in Lakhs except earnings per share)

S. No.	Particulars (Refer notes below)	Standalone			Consolidated		
		Quarter ended 30 Sept., 2021	Corresponding Quarter ended 30 Sept., 2020	Year to date figures for the current period ending 30 Sept., 2021	Quarter ended 30 Sept., 2021	Corresponding Quarter ended 30 Sept., 2020	Year to date figures for the current period ending 30 Sept., 2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total income from operations	5358	3544	10115	19654	14548	34128
2	Net Profit/(Loss) for the period from ordinary activities (before tax, exceptional items and/or extraordinary items)	565	69	955	923	493	1346
3	Net Profit/(Loss) for the period from ordinary activities before tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	565	69	955	923	493	1346
4	Net Profit/(Loss) for the period from ordinary activities after tax (after exceptional items and/or extraordinary items)	396	57	671	665	379	948
5	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period (comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	410	78	686	662	409	985
6	Paid-up equity share capital (Face value in Rs 10 per share)	1274	1165	1274	1274	1165	1274
7	Earnings per share (of Rs 10/- each) (not annualised):						
	(a) Basic (Rs)	3.12	0.48	5.37	4.71	2.40	6.86
	(b) Diluted (Rs)	3.12	0.48	5.37	4.71	2.40	6.86

**Notes:**

- The above Unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 12 November 2021. The unaudited financial results for the current quarter and half year ended 30 September 2021 have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company. The unmodified review report of the Statutory Auditors is being filed with the BSE and National Stock Exchange.
- The above is the extract of the detailed format of the Unaudited quarterly financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and the company's website [www.kddl.com](http://www.kddl.com)

**For and on the behalf of Board of Directors**  
**Yashovardhan Saboo**  
(Chairman and Managing Director)  
DIN-00012158

Place : Gurugram  
Date : 12 November, 2021

## Ireda logs highest-ever net profit of ₹299 cr in Apr-Sep this fiscal

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, November 13

STATE-OWNED INDIAN RENEWABLE Energy Development Agency (Ireda) has posted an all-time high net profit of ₹299.90 crore in the first half of this fiscal (April-September 2021), the Ministry of New & Renewable Energy (MNRE) said on Saturday. Indian Renewable Energy Development Agency (Ireda), a PSU under MNRE, on Saturday announced audited financial results for the first half (H1) and second quarter (Q2) FY2021-22 ending September 30, 2021, the ministry said.

**JASH ENGINEERING LIMITED**  
CIN: L28910MP1973PLC001226  
Registered Address: 31, Sector-C, Sanwer Road, Industrial Area, Indore 452015, Madhya Pradesh, India  
Phone:- 0731-6732700 Email:- [info@jashindia.com](mailto:info@jashindia.com), Website:- [www.jashindia.com](http://www.jashindia.com)

**EXTRACT OF THE UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2021**

(Rs. in Lakhs Except for EPS)

Sr. No.	Particular	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended 31 March 2021 (Audited)
		30 September 2021 (Unaudited)	30 June 2021 (Unaudited)	30 September 2020 (Unaudited)	30 September 2021 (Unaudited)	
1	Total Income from operation	4672.56	3,387.98	4,190.12	8090.54	6,595.36
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax	344.06	193.03	640.15	537.09	559.11
3	Net Profit / (Loss) for period after tax	298.07	208.27	513.26	506.34	468.48
4	Total Comprehensive Income for the period	258.41	198.76	494.19	457.17	438.23
5	Paid-up Equity Share Capital (Face value per share Rs.10/- each)	1187.75	1,187.12	1,183.66	1187.75	1,183.66
6	Earning per share					
	a) Basic (not annualised)	2.51	1.75	4.34	4.26	3.96
	b) Diluted (not annualised)	2.48	1.74	4.34	4.22	3.96

**EXTRACT OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2021**

(Rs. in Lakhs Except for EPS)

Sr. No.	Particular	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended 31 March 2021 (Audited)
		30 September 2021 (Unaudited)	30 June 2021 (Unaudited)	30 September 2020 (Unaudited)	30 September 2021 (Unaudited)	
1	Total Income from operation	6179.26	4,706.12	5,998.89	10885.38	9,329.96
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax	(43.70)	(379.41)	299.32	(423.11)	(193.87)
3	Net Profit / (Loss) for period after tax	(115.51)	(373.04)	136.58	(488.55)	(333.39)
4	Total Comprehensive Income for the period	(203.54)	(331.94)	193.84	(535.48)	(258.13)
5	Paid-up Equity Share Capital (Face value per share Rs.10/- each)	1187.75	1,187.12	1,183.66	1187.75	1,183.66
6	Earning per share					
	a) Basic (not annualised)	(0.97)	(3.14)	1.15	(4.11)	(2.82)
	b) Diluted (not annualised)	(0.96)	(3.14)	1.15	(4.07)	(2.82)

**Notes:**

- The above unaudited standalone and consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by Board of Directors at their meeting held on 12th November, 2021.
- The above unaudited standalone and consolidated financial results is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of Quarterly and Half Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website viz. [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com). The same is also available on the Company's website viz. [www.jashindia.com](http://www.jashindia.com).

**For Jash Engineering Limited**  
Sd/-  
**Pratik Patel**  
Chairman & Managing Director  
DIN - 00780920

Place: Indore  
Date: 12/11/2021

**Sea TV Network Limited**  
Regd. Office : 148, Manas Nagar, Shahganj, Agra-282010  
Ph. : +91-562-4036666, Fax : +91-562-2511070  
Website : [www.seatvnetwork.com](http://www.seatvnetwork.com) Email ID : [cs@seatvnetwork.com](mailto:cs@seatvnetwork.com)  
CIN : L92132UP2004PLC028650

**EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2021**

(Rs.in Lakhs)

Particulars	Standalone					Consolidated				
	Quarter Ended (30.09.2021) (Unaudited)	Quarter Ended (30.06.2021) (Unaudited)	Quarter Ended (30.09.2021) (Unaudited)	Half Year Ended (30.09.2020) (Unaudited)	Year Ended (31.03.2020) (Audited)	Quarter Ended (30.09.2021) (Unaudited)	Quarter Ended (30.06.2021) (Unaudited)	Quarter Ended (30.09.2021) (Unaudited)	Half Year Ended (30.09.2020) (Unaudited)	Year Ended (31.03.2020) (Audited)
	Total Income from Operations (Net)	263.33	263.33	315.31	499.67	605.00	1,227.98	291.89	286.11	406.22
Net Profit for the period (before tax, exceptional and extraordinary items)	(121.73)	(124.76)	(57.04)	(246.49)	(219.41)	(546.01)	(151.76)	(108.79)	(81.60)	(260.54)
Net Profit for the period after tax (after exceptional and extraordinary items)	(121.73)	(124.76)	(57.04)	(246.49)	(219.41)	(546.01)	(151.76)	(108.79)	(81.60)	(260.54)
Net Profit for the period (after tax) (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(121.73)	(124.76)	(57.04)	(246.49)	(219.41)	(546.01)	(151.76)	(108.79)	(81.60)	(260.54)
Paid-up Equity Share Capital (face value of Rs.10/-each)	1,202.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00
Earning per share (Quarterly not annualised)										
Basic (Rs)	(1.01)	(1.04)	(0.47)	(2.05)	(1.83)	(5.28)	(1.26)	(0.91)	(0.68)	(2.17)
Diluted (Rs)	(1.01)	(1.04)	(0.47)	(2.05)	(1.83)	(5.28)	(1.26)	(0.91)	(0.68)	(2.17)

**Notes:**

- The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their meeting held on November 12, 2021. The Statutory Auditors of the Company have carried out Limited Review of the aforesaid results.
- The above is an extract of the detailed format of results for Quarter and Half Year ended on 30th September, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone quarterly/half yearly results are available on the websites of Stock Exchange ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and the Company's website ([www.seatvnetwork.com](http://www.seatvnetwork.com)).

**For Sea TV Network Limited**  
Neeraj Jain  
(Chairman & Managing Director)

Place : AGRA  
Date : 12-November-2021

**गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड**  
**Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited**  
(भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking), रक्षा मंत्रालय / Ministry of Defence  
Regd and Corp Office: GRSE BHAVAN, 61, Garden Reach Road, Kolkata - 700 024  
Phone: 033-2469-8105 to 108, Fax: 033-24698150  
Web: [www.grse.in](http://www.grse.in), (CIN: L35111WB1934GOI007891)

**EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2021**

(₹ in Lakh, Except EPS)

Sl. No.	Particulars	For the Quarter ended			For the Half Year ended		For the Year ended
		30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	31.03.2021
		Unaudited			Unaudited		Audited
1.	Total Income from Operations	42183.09	30418.64	27244.06	72601.73	38239.90	114083.53
2.	Net Profit for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items*)	8164.91	3413.83	7459.33	11578.74	7635.75	22786.68
3.	Net Profit for the period Before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items*)	8164.91	2645.29	5384.39	10810.20	5560.81	20711.74
4.	Net Profit for the period After Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items*)	5878.94	2059.37	3769.73	7938.31	3784.59	15347.12
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	6060.00	2148.25	4385.00	8208.25	4149.65	15702.64
6.	Equity Share Capital	11455.20	11455.20	11455.20	11455.20	11455.20	11455.20
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-	102256.56
8.	Earnings Per Share (of ₹ 10 each) Basic & Diluted (in ₹) (Not Annualised except 31.03.2021)	5.13	1.80	3.29	6.93	3.30	13.40

**Notes :**

- The above Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2021 have been approved by the Board of Directors and taken on record at the meeting held on 13th November, 2021.
- The above is an extract of the Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results is available on the Company website ([www.grse.in](http://www.grse.in)) and on the websites of the National Stock Exchange of India Limited ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)).
- # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules.

**For and on behalf of the Board of Directors**  
Sd/-  
**Rear Admiral V.K. Saxena IN (Retd.)**  
Chairman & Managing Director  
DIN 07696782

Place : Kolkata  
Date : 13th November, 2021

Toll Free - 1800 3004 2020  
Give a missed call - 88888 99953  
[www.aadharhousing.com](http://www.aadharhousing.com)

**AUM**  
₹ 13,754 Cr.

**DISBURSEMENT (Q2 FY 22)**  
₹ 1,157 Cr.

**LIVE ACCOUNTS**  
1,88,000+

**PROFIT (Q2 FY 22)**  
₹ 119 Cr.

**PRESENCE ACROSS**  
326 Branches & Offices  
20 States & UTs

**Statement of Standalone financial results for the quarter ended September 30, 2021**

(Rs. in Lakh)

PARTICULARS	For the quarter ended September 30, 2021		For the quarter ended September 30, 2020		For the year ended March 31, 2021
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
	1 Total Income from Operations	41,814	38,604	41,814	38,604
2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	15,157	11,763	15,157	11,763	43,228
3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	15,157	11,763	15,157	11,763	43,228
4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11,899	9,254	11,899	9,254	33,997
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	11,840	9,273	11,840	9,273	34,033
6 Paid up Equity Share Capital	39,476	3,948	39,476	3,948	39,476
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve)	2,51,101	2,46,705	2,51,101	2,46,705	2,29,778
8 Securities Premium Account	1,33,700	1,69,339	1,33,700	1,69,339	1,33,700
9 Net worth	2,90,571	2,50,647	2,90,571	2,50,647	2,69,248
10 Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	9,89,330	9,63,790	9,89,330	9,63,790	10,37,447
11 Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	NA	NA
12 Debt Equity Ratio	2.70	2.67	2.70	2.67	2.87
13 Earnings Per Share (not annualised for three months ended periods)					
1. Basic:	3.01	2.34	3.01	2.34	8.61
2. Diluted:	2.93	2.28	2.93	2.28	8.36
14 Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA
15 Debenture Redemption Reserve	16,910	16,910	16,910	16,910	16,910
16 Debt Service Coverage Ratio	1.11	0.67	1.11	0.67	0.64
17 Interest Service Coverage Ratio	1.78	1.59	1.78	1.59	1.42

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (the "Regulation") as amended. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchange [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and the Aadhar Housing Finance Limited [www.aadharhousing.com](http://www.aadharhousing.com)
- For the other line items referred in regulation 52 (4) of the Regulation, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange BSE Limited and can be accessed on [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)
- Previous periods / year figures have been regrouped / re-classified wherever necessary in line with the financial results for the quarter ended September 30, 2021

**For and on behalf of the Board of Directors of**  
**Aadhar Housing Finance Limited**

Place : Mumbai  
Date: November 12, 2021

**Deo Shankar Tripathi**  
Managing Director & CEO  
DIN 07153794

**Aadhar Housing Finance Ltd., CIN: U66010KA1990PLC011409, Registered Office:** No. 3, JVT Towers, 8th 'A' Main Road, Sampangiramanagar, Near Hudson Circle, Bengaluru- 560 027 | **Corporate Office:** Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V.Road, Andheri (East), Mumbai - 400069 | Tel. No.: 022 4168 9900 | Fax: 022 4168 9934 | **Customer Care Toll Free:** 1800 3004 2020 | **Give a missed call:** 88888 99953 | **E-mail:** [customercare@aadharhousing.com](mailto:customercare@aadharhousing.com) | **Website:** [www.aadharhousing.com](http://www.aadharhousing.com)

